



**GOSWAMI GANESH DUTT SANATAN DHARAM COLLEGE,  
PALWAL, 121102, HARYANA**

**(NAAC ACCREDITED "A" GRADE**

**WELCOME TO SC/ST/BC CELL**

The Special Cell for Scheduled Castes and Scheduled in college has been established under the directions of University Grants Commission (UGC). After the establishment of the Cell in the college, it specifically concentrated on the welfare of the SC/ST/BC Students. The main aim of the Cell is to monitor the guidelines issued by the University Grants Commission and by the government of Haryana from time to time. The Cell ensures the effective implementation of the reservation policies in admissions in various courses, accommodation in the hostels, appointments to the teaching and non-teaching posts and maintenance of roster register in the college.





To be an institution of excellence in higher education that continually responds to the changing social realities through the development and application of knowledge, towards creating social equality in the society that promotes and protects the Name of the colleges, dignity, equality, social justice and human rights for all, with special emphasis on marginalised communities.



# OBJECTIVES

- ❖ To implement the reservation policy for SC/STs in the college.
- ❖ Collect data regarding the implementation of the policies in respect of admissions, appointments of teaching and non-teaching positions in the college, and analysis of the data showing the trends and changes towards fulfilling the required quota.
- ❖ To take such follow up measures for achieving the objectives and targets laid down for the purpose by the Government of India and the UGC.
- ❖ To implement and monitor the State Government Reservation Policy in the college and ensuring effective implementation of the policies, programmes and Schemes of the Government.



# FUNCTIONING OF SC/ST/BC CELL

- To deal with representations received from Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates regarding their admission, recruitment, promotion and other similar matters in Universities, Institutions and Colleges.
- Monitor the working of the remedial coaching scheme.
- Function as a Grievances Redressal Cell for the grievances of SC/ST students render them necessary help in solving their academic as well as administrative problems.
- Maintain a complaint register for grievances of the students and employees belonging to SC/ST community, and any other work assigned from time to time to promote higher education among these communities suffering social, economic and educational deprivations.



S.no	Names	Designation
1.	Dr. Rajbir Singh	Convener
2.	Dr. Meena Kumari	Member
3.	Sh. Parveen Kumar	Member



# NATIONAL LEVEL ARTICLE WRITING COMPETITION

An online national level 'Article Writing Competition' on "Social Status of Scheduled Castes, Tribes and Backward Classes in India" on 4th June, 2021 ' was organized whose results were declared today on June 5, 2021. Convenor of this competition Dr. Rajveer Singh, President-College Political Science Department said that 30 participants from all over the country participated in the competition. After in-depth analysis of the jury, Sartaj Singh, MA student of Political Science Department, Panjab University, Chandigarh secured first position, second position was held by Aman (MSc Physics) of JC Bose YMCA University, Faridabad and third position was secured by Saraswati Mahila Mahavidyalaya. Sakshi, a first year BA student of Palwal, secured third position. The judges of the competition were played by Mr. Ranbir Singh, Mr. Praveen Kumar and Mr. Satish Deshwal.



The poster is for a National Level Article Writing Competition. At the top, it features a map of India with the text 'SOCIAL EQUALITY IN INDIA' and the college's logo. The college name is 'Goswami Ganesh Dutt Sanatan Dharam College, Palwal (Haryana)', which is NAAC Accredited 'A' Grade and affiliated to M.D. University, Rohtak. The organizing body is the 'SC/ST & BC CELL' on June 4, 2021. The topic is 'Social Status of SC/ST and Backward Classes' in English and Hindi. The managing committee includes Sh. Mahender Kalra (President), Sh. Manoj Mangla (Vice President), Sh. Banshidhar Makhija (General Secretary), and Sh. Nilesh Mangla (Treasurer). The judges are Sh. Ranbir Singh, Sh. Parveen Kumar, and Sh. Satish Deshwal. The college offers various U.G. and P.G. courses. A list of rules for participants is provided, including submission format, deadline, and contact information. The bottom section lists the Patron (Dr. G.K. Sapra), IQAC Convener (Dr. P.K. Verma), Convener (Dr. Rajbir Singh), and Organizing Secretary (Dr. Meena Kumari).

**SOCIAL EQUALITY IN INDIA**

**Goswami Ganesh Dutt Sanatan Dharam College , Palwal (Haryana)**  
NAAC Accredited "A" Grade  
Affiliated to M.D. University, Rohtak

**SC/ST & BC CELL**  
is organizing  
**NATIONAL LEVEL ARTICLE WRITING COMPETITION**  
On 4th June 2021  
On the Topic

Social Status of SC/ST and Backward Classes

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की सामाजिक स्थिति

**Managing Committee**  
Sh. Mahender Kalra (Adv)(President)  
Sh. Manoj Mangla (Vice President)  
Sh. Banshidhar Makhija (General Secretary)  
Sh. Nilesh Mangla (Treasurer)

**Judges of the Event**  
Sh. Ranbir Singh Sh. Parveen Kumar Sh. Satish Deshwal

**COURSES OFFERED IN COLLEGE**

- Running U.G. Courses : B.A, B. Com, B.Sc, B.C.A, B.B.A, B. Sc (C.S.) ,B.Com(Vocational)( SFS )
- Running P.G. Courses : M. Sc ( Physics, Botany, Chemistry, & Math), M. Com. (SFS)
- About 35 students cleared NET/JRF, for any query contact to Sh.Pawan Mukhija-9968988373

1. Each participant can submit only one entry in English or Hindi ( Pdf format).
2. Mention your Name , Class, Institute Name, Email id and Mobile Number .
3. Last date of sending entries is 4<sup>th</sup> June 2021 & result will be declared on 8<sup>th</sup> June 2021.
4. The Article should not exceed to 700 words.
5. Certificate of excellence will be given to the winners.
6. Submit your pdf file to Email : polticalscience.ggdsd@gmail.com

For any Query Contact @ 9467735574

Submit your registration to the following link- <https://forms.gle/6txQWV8ukRaLRcGDZ>

**Patron**  
Dr. G.K.Sapra  
(Principal)

**IQAC CONVENER**  
Dr.P.K.Verma

**CONVENER**  
Dr. Rajbir Singh

**ORGANIZING SECRETARY**  
Dr. Meena Kumari

# ACTIVITY PERFORMED BY STUDENTS

## विचारों की आज़ादी: मजबूत लोकतंत्र का आधार

"जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन" - ग्रीस दार्शनिक क्लेओन द्वारा परिभाषित और अठारहवीं शताब्दी में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दोहराई गई लोकतंत्र की यह परिभाषा शायद ही किसी को ना मादुम हो। दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र प्राचीन ग्रीस के एथेंस शहर में प्रचलित हुआ। जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने में भागीदार बने। किन्तु इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र से ज्यादातर लोग को बाहर रखा गया जिसमें महिलाएँ, गुलाम आदि शामिल थे। अतः कुलीन, ताकतवर और विशिष्ट वर्ग ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वाहक बना। भारतीय दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म के अन्तर्गत सोलह महाजनपद में विचारशील लोकतंत्र की शुरुआत हुई। साधारण शब्दों में विचार-विमर्श या सर्वसम्मति से निर्णय लेना। आधुनिक लोकतंत्र की नींव सन् 1688 में इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण क्रांति, सन् 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति और सन् 1776 में अमरीकी क्रांति को देखा जा सकता है। इंग्लैंड की रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति ने यह सुनिश्चित किया कि प्रशासकीय नीति एवम् राज्य को चलाने के लिए संसद की स्वीकृति होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मारा पूरे विश्व को प्रभावित किया और राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बना। अमरीकी क्रांति ने लोकप्रभुत्व के सिद्धांत का पोषण किया और इस तरह तमाम सामाजिक, राजनीतिक उच्चतम-पुच्छल के बाद आधुनिक लोकतंत्र विश्व भर में स्थापित हुआ।

आज दुनिया के तकरीबन सभी देश लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। इसका कारण लोकतंत्र में निहित अभिव्यक्ति की आज़ादी है। विचारों की स्वतंत्रता के बगैर लोकतंत्र खोखला और दिखावटी किसी वस्तु के समान है। दुनिया के विभिन्न देशों में वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 19-22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जिसमें अनुच्छेद 19 में बोलना, विचार व्यक्त करना, शांतिपूर्वक सम्मिलित होना, संगठित होने से लेकर प्रेस की आज़ादी तक शामिल है।

सोई भी देश कितना लोकतांत्रिक है वे वहाँ कि प्रेस को देख कर समझा जा सकता है। अगर पत्रकार समाल पृच्छने से डरता रहा है, कोई खबर चलाने में उसके अंदर डर बैठा है या फिर सत्ताधीशों के गोद में लोटपोट रहा है तो समझिए लोकतंत्र खतरे में है। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सत्ता केरी सलुक कर रही है। यह बातें लोकतंत्र में काफी मायने रखती है। असहमति कि आवाज़ों को दवाना, विपक्ष को खत्म करना, मीडिया को खरीद लेना, ऑडोलन को किसी भी तरह कुचलने का प्रयास करना, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालना यह दिखाता है कि सत्ता तानाशाह के हाथों जा चुका है। स्वाभाविक तौर पर तानाशाही का जन्म लोकतंत्र से ही होता है, और निरंकुशता व गुलामी का सबसे चरम रूप सबसे स्वच्छंद आजादी से जन्म लेता है।" यह कथन ग्रीस के महान दार्शनिक प्लेटो की है। अतः देश के तमाम नागरिक को यह बात समझना

होगा कि आपके निर्णय से चुनी हुई सरकार निरंकुश ना हो जाए। जनता से रूबरू हो, कठिन समानों का जवाब दे तथा विपक्ष का सम्मान करे व असहमत आवाज़ों को स्वीकार कर निर्णायक मोड़ पर पहुंचे।

भगत सिंह का कहना था "जो चीज आज़ाद विचारों को बर्दाश नहीं कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए।" आज के परिप्रेक्ष्य में भगत सिंह को याद करना, उनके विचारों को समझना, अपने अंदर डालना समय की मांग बन चुका है। गौरव कादूर्नी गतिविधि अभियान का गलत इस्तेमाल कर सरकार प्रतिनिधित्व को, विपक्ष विचार रखने तथा असहमति जताहिर करने वाले लोगों को जेल में डाल रही है। वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले लोग खुलेआम पूरा रहे हैं। यहाँ तक कि सत्ता के शिखर पर भी क्रांतिज हो रहे हैं। आए दिन भीड़ हट्ट्या, रंग-मसाल की खबरें आती रहती है। लोकतंत्र को भीड़वृद्ध होने से बचाना होगा। महात्मा गांधी का कहना था - "सच्चा लोकतंत्र किसी एक केंद्र में बीस आदमियों के मिल बैठने से नहीं चलता जा सकता। इसे नीचे से काम करना चाहिए। लोकतंत्र का संवाधान गांव-गांव के लोगों द्वारा खुद से होना चाहिए।" इस वास्त में लोकतांत्रिक समाज निर्माण करने की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यक्ति को खुद लोकतांत्रिक होना होगा, दूसरे के विचारों का सम्मान करना होगा। बेहतर संवाद स्थापित कर समाज को लोकतांत्रिक बनाने की जिम्मेवारी हम सब की है और सब जा कर समाज में होने वाली राजनीति लोकतांत्रिक हो पाएगी।

विचारों कि आज़ादी एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अत्यावश्यक है। विचारों की स्वतंत्रता के बगैर लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धन्यवाद।

नाम - श्री निधि  
कॉलेज - राम लाल आनंद महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय)

Student's name

Zaberiya

Father's name

MOHD. SAJID HUSSAIN

Course: B.Ed.

College's name

MODERN COLLEGE OF  
PROFESSIONAL STUDIES  
MOHAN NAGAR, GHAZIABAD

TOPIC -

FREEDOM OF EXPRESSION:  
FOUNDATION OF A STRONG  
DEMOCRACY  
विचारों की आजादी: मजबूत  
लोकतंत्र का आधार


Page No. \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
विचारों की आजादी: मजबूत लोकतंत्र का आधार

"विचारों की आजादी लोकतंत्र का आधार, हमारा मौलिक अधिकार देता है नागरिकों को इसका ज्ञान नागरिक कर संकेतों अपने विचारों को समझ रूप से प्रदान, जिससे बनेगा भारत देश का लोकतंत्र महान !!"

विचारों की आजादी

विचारों की आजाद भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से एक है। दुनिया भर के कई देश अपने नागरिकों को उनके विचारों और सोच को साझा करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए विचारों की आजादी की अनुमति देते हैं। भारत सरकार और अन्य कई देश अपने नागरिकों को विचारों की आजादी प्रदान करते हैं। ऐसा विशेष रूप से जहाँ-जहाँ लोकतांत्रिक सरकार हैं उन देशों में है।

प्रस्तावना :- दुनिया भर के अधिकांश देशों के नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की आजादी शामिल है। यह अधिकार उन देशों में रहने वाले लोगों को कानून द्वारा दंडित होने के डर के बिना अपने मन की बात करने के लिए सक्षम बनाता है। अभिव्यक्ति की आजादी को मूल अधिकार



बोलने की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से एक है। दुनिया भर के कई देशों में अपने नागरिकों को अपने विचारों आ की साझा करने के लिए उन्हें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। भारत सरकार और अन्य देश अपने नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह विशेष रूप से लोकतांत्रिक सरकार वाले देशों में ऐसा होता है। बोलने अथवा अपने विचारों को व्यक्त करने की धारणा बहुत पहले उत्पन्न हुई थी। इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स 1689 ने बोलने या अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में अपनाया और यह अभी भी प्रभावी है।



# RESULT FOR ARTICLE WRITING COMPETITION



Goswami Ganesh Dutt Sanatan Dharam College, Palwal, Haryana  
NAAC Accredited "A" Grade Affiliated to M.D.University, Rohtak

Result of the  
**NATIONAL LEVEL ARTICLE WRITING COMPETITION**,  
Held on 4<sup>th</sup> June 2021, Organised by the SC, ST & BC CELL On  
*Topic: Social Status of SC, ST & BC in India*

Student Name	Institution Name	Position
Sartaj Singh	Panjab University, Chandigarh	First
Aman	J .C. Bose YMCA University, Faridabad	Second
Sakshi	Saraswati Mahila Mahavidalaya, Palwal	Third

<u>PATRON</u>	<u>IQAC</u> <u>CONVENER</u>	<u>CONVENER</u>	<u>ORGANIZING</u> <u>SECRETARY</u>	<u>TECHNICAL</u> <u>SUPPORT</u>
Dr.G.K.Sapra (Principal)	Dr.P.K.Verma	Dr. Rajbir Singh	Dr. Meena Kumari	Sh. Pawan Mukhija

